



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 556]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 जुलाई 2025 — आषाढ़ 30, शक 1947

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 जुलाई 2025

आदेश

क्रमांक ESTB/4121/2025-HOME SECTION — राज्य सरकार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46, 2023) की धारा 265 की उप-धारा (3) के द्वितीय परंतुक, धारा 266 की उप-धारा (2) के द्वितीय परंतुक तथा धारा 308 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कलेक्टर जिला-रायपुर एवं उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित जिला कलेक्टोरेट, नगर निगम, जनपद कार्यालय, शासकीय अस्पतालों, जेल एवं अन्य कार्यालयों में संचालित निम्नलिखित विडियो कांफ्रेंसिंग कक्षों को, निर्दिष्ट स्थानों के रूप में अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

क्रमांक	स्थान	वीडियो कांफ्रेंसिंग संचालित कार्यालय का नाम
1.	रायपुर	जिला कलेक्टोरेट
2.	धरसीवां / तिल्दा / आरंग / अभनपुर	जनपद कार्यालय
3.	रायपुर	नगर निगम
4.	रायपुर	सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक
5.	रायपुर	केन्द्रीय जेल
6.	रायपुर	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
7.	आरंग	कार्यालय ब्लॉक मेडिकल अधिकारी
8.	अभनपुर	कार्यालय ब्लॉक मेडिकल अधिकारी
9.	तिल्दा	कार्यालय ब्लॉक मेडिकल अधिकारी
10.	धरसीवां	कार्यालय ब्लॉक मेडिकल अधिकारी
11.	रायपुर	जिला चिकित्सालय पंडरी
12.	आरंग	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
13.	मंदिर हसौद	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
14.	राखी	सिविल अस्पताल
15.	धरसीवां	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
16.	माना	सिविल अस्पताल
17.	तिल्दा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
18.	खरोरा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
19.	अभनपुर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
20.	गोबरा नवापारा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक अग्रवाल, उप-सचिव.